

3 यूहन्ना

1 यह खत बुज्जुर्ग यूहन्ना की तरफ से है।

मैं अपने अजीज गयुस को लिख रहा हूँ जिसे मैं सच्चाई से प्यार करता हूँ।

2 मेरे अजीज, मेरी दुआ है कि आपका हाल हर तरह से ठीक हो और आप जिस्मानी तौर पर उतने ही तनदुर्स्त हों जितने आप स्थानी लिहाज से हैं।

3 क्योंकि मैं निहायत खुश हुआ जब भाइयों ने आकर गवाही दी कि आप किस तरह सच्चाई के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। और यक़ीनन आप हमेशा सच्चाई के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं।

4 जब मैं सुनता हूँ कि मेरे बच्चे सच्चाई के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो यह मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का बाइस होता है।

गयुस की तारीफ

5 मेरे अजीज, जो कुछ आप भाइयों के लिए कर रहे हैं उसमें आप वफादारी दिखा रहे हैं, हालाँकि वह आपके जाननेवाले नहीं हैं।

6 उन्होंने खुदा की जमात के सामने ही आपकी मुहब्बत की गवाही दी है। मेहरबानी करके उनकी सफर के लिए यों मदद करें कि अल्लाह खुश हो।

7 क्योंकि वह मसीह के नाम की खातिर सफर के लिए निकलते हैं और गैरईमानदारों से मदद नहीं लेते।

8 चुनाँचे यह हमारा फर्ज़ है कि हम ऐसे लोगों की मेहमान-नवाज़ी करें, क्योंकि यों हम भी सच्चाई के हमखिदमत बन जाते हैं।

दियुतरिफेस और देमेतरियुस

9 मैंने तो जमात को कुछ लिख दिया था, लेकिन दियुतरिफेस जो उनमें अव्वल होने की खालिश रखता है हमें कबूल नहीं करता।

10 चुनाँचे मैं जब आऊँगा तो उसे उन बुरी हरकतों की याद दिलाऊँगा जो वह कर रहा है, क्योंकि वह हमारे खिलाफ बुरी बातें बक रहा है। और न सिर्फ यह बल्कि वह भाइयों को खुशआमदीद कहने से भी इनकार करता है। जब दूसरे यह करना चाहते हैं तो वह उन्हें रोककर जमात से निकाल देता है।

11 मेरे अजीज़, जो बुरा है उस की नकल मत करना बल्कि उस की करना जो अच्छा है। जो अच्छा काम करता है वह अल्लाह से है। लेकिन जो बुरा काम करता है उसने अल्लाह को नहीं देखा।

12 सब लोग देमेतरियुस की अच्छी गवाही देते हैं बल्कि सच्चाई खुद भी उस की अच्छी गवाही देती है। हम भी इसके गवाह हैं, और आप जानते हैं कि हमारी गवाही सच्ची है।

आखिरी सलाम

13 मुझे आपको बहुत कछु लिखना था, लेकिन यह ऐसी बातें हैं जो मैं कलम और स्थाही के जरीए आपको नहीं बता सकता।

14 मैं जल्द ही आपसे मिलने की उम्मीद रखता हूँ। फिर हम स्बरू बात करेंगे।

15 सलामती आपके साथ होती रहे।

यहाँ के दोस्त आपको सलाम कहते हैं। वहाँ के हर दोस्त को शर्ख्सी तौर पर हमारा सलाम दें।

کتابہ-مُکدّس

The Holy Bible in the Urdu language, Urdu Geo Version, Hindi Script

Copyright © 2019 Urdu Geo Version

Language: اردو (Urdu)

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not sell this work for a profit.

You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2024-09-20

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 1 Jul 2025 from source files dated 20 Sep 2024

a1ee0020-7263-5fce-8289-9d7a7ac2d299